

आपातकालीन प्रक्रियाएं



लाइफजैकेट

सुनिश्चित करें कि सभी ने अपना लाइफजैकेट पहना हुआ है



समुद्री रेडियो

VHF चैनल 16 (67 वैकल्पिक)

एचएफ आवृत्तियाँ 4125 kHz, 6215 kHz, 8291kHz



फोन

000 पर कॉल करें



फलैयर्स

दिन के समय नारंगी या लाल फलैयर्स का प्रयोग करें,
रात के समय लाल फलैयर्स का प्रयोग करें



इमर्जेंसी पोज़िशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन (EPIRB)

अपनी 406 MHz EPIRB को सक्रिय करें



ध्यान आकर्षित करें

बार-बार अपनी बाँहें ऊपर उठाएं



अपनी नाव के पास रहें

शांत रहें और अपनी नाव के पास रहें - तैराकी करने वाले
व्यक्ति की तुलना में नाव का दिखाई देना बहुत आसान होता है

यह प्रकाशन केवल सामान्य जानकारी के लिए ही है और यह प्रासंगिक विधान
अथवा कानूनी या पेशेवर सलाह के विकल्प के रूप में नहीं है।

और अधिक जानकारी के लिए safetransport.vic.gov.au पर जाएं।

SAFE TRANSPORT VICTORIA

